

PANKAJ PIYUSH TRADE AND INVESTMENT LTD

Regd. Off. :314, 3rd Floor, Opposite Plot No. 39, R. G. Mall, Sector-9, Rohini, New Delhi-110085
(CIN : L65990DL1982PLC256291)

Website : www.pptinvestment.in
E-mail : infopptinvestment@gmail.com
Ph. : 011-42804171, 9891442777

To
Manager- Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400001
Scrip Code: 506122

Date: August 14, 2021

Reg.: Publication of Un-Audited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2021 in Newspaper pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir,

In terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the company has published extract of statement of Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter ended 30th June, 2021 which have been considered, approved and taken on record by the Board of Directors at their meeting held on 12th August, 2021.

The said Financial Results have been published in Financial Express (English Edition) and Jansatta (Hindi Edition) on 14th August, 2021, scan copy of which is attached.

This is in compliance of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

This is for your information & records.

Thanking You,

For Pankaj Piyush Trade & Investment Limited

Kanika Arora
Company Secretary
Place: Delhi

Indian real estate growth story with its hits and misses.

The story of evolution

Evolution has happened over several decades, where the real estate sector has been successful to mirror the Indian economy, reflecting economic prosperity. The growth curve started from navigating an opaque unstructured business to the deep impact of bureaucratic pressures, delays amid

urban reforms kicked off, India Inc saw spikes in emergence of the domestic entrepreneurship class along with global entities optimistically venturing in India with long-term goals. Simultaneously, real estate asset gained eyeballs from global Indians as the preferred asset class to invest in a 'nest back home'.

The period from the new millennium 2000 to 2008 saw a series of policy tweaks

indications and taxation. Demonetisation is an apt example of reforms which impacted real estate in the manner that a Tsunami would. 'Short-term pain for long-term gain' is an adage which somehow has not reflected in terms of the pain being 'short'. Real estate has witnessed the price points being stagnant since demonetisation, and there has been little upward movement since then. If one considers inflation and prices remaining stagnant, the burden borne by

represented as the culprit. GST, the next big tax reform aimed at 'one nation, one tax', changed the rules of play to bring in uniformity across the board. This also opened the floodgates for new sunrise sector of logistics and industrial parks to flourish beyond any geographical boundaries.

The pathbreaking reform of insolvency and bankruptcy code witnessed the age of the homebuyers as an equitable stakeholder. These reforms have been inclined towards customer centricity.

PANKAJ PIYUSH TRADE & INVESTMENT LIMITED
 REGD. OFFICE : 314, 3RD FLOOR, OPPOSITE PLOT NO. 39, RG MALL, SECTOR-9, ROHINI, NEW DELHI-110085
 WEBSITE: www.pptinvestment.in, EMAIL: info@pptinvestment@gmail.com,
 CIN: L65990DL1982PLC256291 PHONE - 011-42804171, 9891442777

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2021
 (Rs. In lakhs)

Sr. no	Particulars	STANDALONE			
		Quarter Ended 30.06.2021 (Un-Audited)	Previous Quarter Ended 31.03.2021 (Un-Audited)	Quarter Ended 30.06.2020 (Un-Audited)	Previous Year Ended 31.03.2021 (Audited)
1	Total income from operations (net)	48.78	190.78	33.45	992.95
2	Net Profit / (Loss) from ordinary activities before tax	13.52	(70.94)	39.95	10.35
3	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	10.12	(53.08)	29.56	(7.57)
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	10.12	(53.08)	29.56	(7.57)
5	Paid-Up Equity Share Capital	40	40	40.00	40.00
6	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet)	2498.06	2,505.63	2,505.63	2,505.63
7	Earnings Per Share (before & after extraordinary items) (of Rs. 10/- each)				
	Basic:	2.53	-13.27	7.39	(1.89)
	Diluted:	2.53	-13.27	7.39	(1.89)

NOTES:

- The above unaudited financial results for the quarter ended 30th June, 2021 have been reviewed by the Audit Committee and then approved by the Board of Directors at their meeting held on 12th August, 2021.
- The above results have been prepared in compliance with the recognition and measurement principles of the Companies (India Accounting Standards) Rules, 2015 as amended by the Companies (India Accounting Standards Amendment) Rules, 2016 prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.
- Figures for the previous period have been regrouped wherever considered necessary so as to conform to the classification of the current period.
- The format for above results as prescribed in SEBI's circular CIR/SFD/CMS/15/2015 dated 30th November, 2015 has been modified to comply with requirements of SEBI's circular dated 5th July, 2016, Ind AS and Schedule III (Division-II) to the companies Act, 2013 applicable to companies that are required to comply with Ind AS.
- These Results are also updated on the company's website URL: www.pptinvestment.in

For Pankaj Piyush Trade & Investment Limited
 Sd/-
 Vinod Kumar Bansal
 Managing Director

Date : August 12, 2021
 Place: New Delhi

TARAI FOODS LIMITED
 REGD. OFFICE: 13, HANUMAN ROAD, CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI
 CIN NO.: L15142DL1990PLC039291 WEBSITE: www.taraifoods.com

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2021

Particulars	Quarter ending 30.06.2021	Previous Quarter ending 31.03.2021
	UNAUDITED	AUDITED
1 Total income from operations (net)	76.3	
2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	4.1	
3 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	4.1	
4 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	4.1	
5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	4.1	
6 Paid Up Equity Share Capital (Face Value Rs. 10/-)	1536.41	1536.41
7 Reserves (excluding Revaluation Reserve & Debit balance in Profit and Loss A/c as shown in the Balance Sheet of previous year)	448.85	448.85
8 Basic and Diluted EPS (NOT ANNUALISED)(after Tax, exceptional and Extraordinary charges)		
Basic	0.03	
Diluted	0.03	

Notes:

- The financial results of the company have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013, read with the relevant rules issued thereunder.
- The above results have been reviewed by Audit Committee and were approved at the meeting held on 13.08.2021.
- The company has its operations of manufacturing of fresh, frozen foods and vegetables.
- Previous figures have been regrouped, reclassified wherever considered necessary to conform to the classification of the current period.

Place: Rudrapur
 Date: 13.08.2021

TIL Limited

Regd. Office : 1, Taratolla Road, Garden Reach, Kolkata 700 024, Tel : +91 33 6633 2000 / 2845, Fax : +91 33 6633 2000
 CIN : L74999WB1974PLC041725, Website : www.tilindia.in

Extract of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for Three Months ended 30th June 2021

Sl. No.	Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED	
		Three months ended		Twelve months ended		Three months ended	
		30th June 2021	31st March 2021	30th June 2020	31st March 2021	30th June 2021	31st March 2021
		Unaudited	Unaudited (Note 2)	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited (Note 2)
1.	Total Income from Operations	2,928	7,071	4,446	31,679	1,317	7,043
2.	Profit / (Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(3,481)	(4,594)	(1,952)	(7,222)	(5,185)	(4,908)
3.	Net Profit / (Loss) for the period						

₹ in lakhs

ES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE. ONLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

शी 1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्ध तथा अन्य उद्घाटन अंश) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अन्तर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दृष्टिगत की गई तिमाही वित्तीय परिणामों के सम्पूर्ण विवरण प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज तथा सूचीबद्ध सजा की वेबसाइटों पर उपलब्ध है।
 2. लेखा नीतियों में परिवर्तन के कारण शुद्ध लाभ/हानि, कुल व्यापक आय अथवा किसी अन्य संबंधित धित्तीय मदों पर प्रभाव को फुट नोट द्वारा उद्घाटित किया जाएगा।
 3. # जो भी लागू हो, ईड-एस निष्पादनी/एस निष्पादनी के अनुसार विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों को लाभ तथा हानि के विवरण में सम्मिलित किया गया है।

नोच इन्वेस्ट इन्व्हेस्टमेंट लिमिटेड के निवे हस्ता/-
 नाम: चैतन्य चौधरी
 पदनाम: निदेशक तथा सीईओ
 DIN: 06813394

तिथि: 12.08.2021

ह./-
दीपाली मित्तल तथा अमित गोयल,
 याचिकाकर्ताओं के वकील,
 तिथि: 11.08.2021 171, चित्र विहार,
 स्थान: नई दिल्ली दिल्ली- 110092

09.09.21	एल्लागुडा
13.09.21	रेयनपाडु
14.09.21	तिरुपति
15.09.21	सिकन्दराबाद
16.09.21	विजयवाड़ा
17.09.21	हैदराबाद
20.09.21	गुंताकल
21.09.21	गुंतूर
22.09.21	नांदेड़
23.09.21	लल्लागुडा
24.09.21	रेयनपाडु
27.09.21	तिरुपति
30.09.21	सिकन्दराबाद, हैदराबाद, गुंताकल, गुंतूर, विजयवाड़ा, नांदेड़, लल्लागुडा, रेयनपाडु, तिरुपति

मेटेड
 नई दिल्ली-110060
www.smcredits.com
परिष्कृत वित्तीय परिणाम
 (रु. लाख में)

तिमाही	समाप्त वर्ष	तिमाही	समाप्त वर्ष
21	30.06.2020	21	03.2021
अलेखापरीक्षित	(लेखापरीक्षित)		
29	87.97	516.33	
62	41.56	299.10	
20	33.56	449.68	
01	2148.67	23331.97	
22	1002.22	1002.22	
		48091.89	
39	0.33	4.49	
39	0.33	4.49	

पंकज पीयूष ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : 314, तीसरी मंजिल, रामने प्लांट सं. 39, आर.जी. मॉल, सेक्टर-9, रोहिणी, नई दिल्ली-110085
 वेबसाइट : www.pptinvestment.in, ई-मेल : infopptinvestment@gmail.com,
 सीआईडीएन : L65990DL1982PLC256291, दूरभाष : 011-42804171, 9891442777
 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही तथा वित्त वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश (रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	स्टैण्डएलोन			
		समाप्त तिमाही 30.06.2021 (अलेखापरीक्षित)	समाप्त गत तिमाही 31.03.2021 (अलेखापरीक्षित)	समाप्त तिमाही 30.06.2020 (अलेखापरीक्षित)	समाप्त गत वर्ष 31.03.2021 (लेखापरीक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय (निवल)	48.78	190.78	33.45	992.95
2	कर पूर्व सामान्य गतिविधियों से निवल लाभ/(हानि)	13.52	(70.94)	39.95	10.35
3	अवधि हेतु कर परचात निवल लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के परचात)	10.12	(53.08)	29.56	(7.57)
4	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर परचात) तथा अन्य व्यापक आय (कर परचात) से मिलकर]	10.12	(53.08)	29.56	(7.57)
5	प्रदत्त इन्विंटी शेयर पूंजी	40	40	40.00	40.00
6	आरक्षितियां (तुलन पत्र में प्रदर्शित पुनर्मुल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर)	2498.06	2,505.63	2,505.63	2,505.63
7	आय प्रति शेयर (असाधारण मदों से पूर्व एवं परचात) (रु. 10/- प्रत्येक के)				
	वैसिक :	2.53	-13.27	7.39	(1.89)
	डाइल्यूटेड :	2.53	-13.27	7.39	(1.89)

नोट :
 1. 30 जून, 2021 को समाप्त उपर्युक्त अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की समीक्षा ऑडिट कम्पटी द्वारा की गयी है और 12 अगस्त, 2021 को आयोजित उनके बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।
 2. उपर्युक्त परिणाम कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक संशोधन) नियम, 2016 द्वारा यथासंशोधित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 की मान्यता तथा मापन सिद्धांतों एवं प्रयोध्य सीमा तक अन्य मान्यताप्राप्त लेखांकन प्रथाओं एवं नीतियों के अनुपालन में तैयार किये गये हैं।
 3. वर्तमान अवधि के वार्गिकण को सुनिश्चित करने के लिए जहां आवश्यक समझा गया वहां गत अवधि के आंकड़ों को पुनर्संमूहिकृत किया गया है।
 4. उपर्युक्त परिणामों का प्रारूप जैसा कि सेबी परिपत्र CIR/SFD/CMS/15/2015 दिनांक 30 नवम्बर, 2015 में निर्धारित है, को ईड एस के अनुपालन में वांछित कम्पनियों हेतु प्रयोध्य कम्पनी अधिनियम, 2013 की ईड एस अनुसूची III (डिवीजन-II) एवं सेबी परिपत्र दिनांक 5 जुलाई, 2016 की वांछनीयताओं के अनुपालन में संशोधित किया गया है।
 5. इन परिणामों को कम्पनी की वेबसाइट URL: www.pptinvestment.in पर भी अपडेट किया गया है।

कृते पंकज पीयूष ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
 ह./-
 विनोद कुमार बंसल
 प्रबन्ध निदेशक

तिथि : 12 अगस्त, 2021
 स्थान : नई दिल्ली

अक्टूबर ई-नीतामी-2021

तिथि	डिवीजन/डियो
01.10.21	सिकन्दराबाद
04.10.21	विजयवाड़ा
05.10.21	हैदराबाद
06.10.21	गुंताकल
07.10.21	गुंतूर
08.10.21	नांदेड़
11.10.21	लल्लागुडा
12.10.21	रेयनपाडु
13.10.21	तिरुपति
14.10.21	सिकन्दराबाद
18.10.21	विजयवाड़ा
20.10.21	हैदराबाद
21.10.21	गुंताकल
22.10.21	गुंतूर
25.10.21	नांदेड़
26.10.21	लल्लागुडा
27.10.21	रेयनपाडु
28.10.21	तिरुपति
29.10.21	सिकन्दराबाद, हैदराबाद, गुंताकल, गुंतूर, विजयवाड़ा, नांदेड़, लल्लागुडा, रेयनपाडु, तिरुपति

प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक,
 सिकन्दराबाद
 अधिक निविदा शर्तों/विवरणों तथा निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने के लिए कृपया वेबसाइट <https://www.irops.gov.in> अथवा www.scr.indianrailways.gov.in देखें।

00DL1999PLC103001
 07100, Fax: 0120-4807172

PER ENDED 30 JUNE, 2021

(Rs. in Crores, unless otherwise stated)

CONSOLIDATED

Three months ended 30 June, 2021	Corresponding three months ended in the previous year 30 June, 2020	Year ended 31 March, 2021
(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
203.88	167.68	782.98
50.27	27.81	193.64
50.27	27.81	193.64
37.34	12.76	131.5
37.44	12.63	131.91

GOGIA CAPITAL SERVICES LIMITED

CIN: L74899DL1994PLC059674

Regd. Office:- 100A/1 Right wing, the capital court ground floor, Shopping centre, Munirka-II New Delhi 110067

Email:-accounts@gogiacap.com, Website:- www.gogiacap.com, Contact no: 011-49418888

Extract of Un-audited standalone financial results for the quarter ended on 30th June, 2021 (Figures in Lakhs)

S. NO	Particulars	30.06.2021	30.06.2020	31.03.2021	31.03.2021
		Quarter Unaudited	Quarter Unaudited	Quarter Audited	Year ended Audited
1	Total Income from Operations	174.60	151.35	137.33	665.77
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	109.94	73.02	120.96	340.25
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	109.94	73.02	120.96	340.25
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	79.94	55.40	84.58	248.87
5	Total Comprehensive Income for the				